



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 02.07.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### पुलिस लाईन्स खीरी में मॉक बलवा ड्रिल का आयोजन



आज दिनांक 02.07.2021 दिन शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल द्वारा पुलिस लाईन्स खीरी परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली गयी व परेड का निरीक्षण किया गया तथा इस दौरान शान्ति व्यवस्था के मद्देनजर आयोजित मॉक बलवा ड्रिल का भी निरीक्षण किया गया। जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अरुण कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी, प्रत्येक थाने से आये पुलिस बल एवम् रिक्रूट आरक्षीगण मौजूद रहे। प्रतिसार निरीक्षक एवम् उनकी टीम द्वारा बलवाईयो एवम् दंगाइयों पर नियंत्रण हेतु मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौजूद सभी पुलिस बल को यह निर्देशित किया गया कि किसी भी शांति व्यवस्था ड्यूटी में शांति भंग करने वालों के विरुद्ध न्यूनतम बल प्रयोग के साथ प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिये। जिस हेतु सदैव मानसिक एवम् शारीरिक रूप से तत्पर रहें एवम् दंगा नियंत्रण के समस्त उपकरण सक्रिय दशा में सदैव अपने साथ रखे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी व समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को अपने-अपने सम्बन्धित थानों पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल का नियमित अभ्यास, उपकरणों के प्रयोग, रख-रखाव तथा साफ-सफाई हेतु भी निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष को गुमशुदा बच्चों/अपहृत/अपहृता की बरामदगी करने, हत्या, लूट, नकबजनी, चोरी के अनावरण, जनता की शिकायतों के निस्तारण, अपराधों के रोकथाम व घटना का अनावरण कर शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये।

**अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 260 लीटर अवैध शराब एवं 04 शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 120 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 03 अभियुक्तों 1.गुल्ला पुत्र राकेश नि0 ग्राम सरैया विलियम थाना मोहम्मदी खीरी 2.वसन्त पुत्र रामचन्द्र पासी नि0 विसारी खेडा थाना मैगलगंज खीरी 3.राज कुमार पुत्र हेमराज नि ग्राम मेरा थाना पसगवां जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना पसगवां पर आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 260 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 अवैध शराब भट्टी एवं शराब बनाने उपकरण बरामद कर 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 09 अभियोग पंजीकृत किए गए।

## **थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त इकरार को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त इकरार उर्फ अंकल उर्फ कालिया पुत्र बन्धा नि० देवरिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 273/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना मितौली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त धर्मे श कुमार को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्मे श कुमार पुत्र छोटकन्ने पासी नि० खमरिया थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 222/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त उत्तम को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त उत्तम पुत्र छेदू नि० चपकहा थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 292/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मुन्ना को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अभियुक्त मुन्ना पुत्र मुमताज नि० देवरिया थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 274/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## **थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों 1. अनिल पुत्र बहादुर नि० सरैया थाना नीमगांव खीरी व 02 अन्य नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तों व कुल 1,950 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 179/21 धारा 13 जुआं अधि० पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी**

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना मितौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 223/21 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त रणधीर उर्फ भगत पुत्र हीरालाल नि0 मोहम्मदपुर थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 254/21 धारा 323/504/506/436 भादवि में वांछित अभियुक्त कमाल पुत्र इब्राहिम निवासी हरदेवपुरवा मजरा मटेहनी थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

**अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 260 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार**

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **260 लीटर अवैध कच्ची शराब, 04 शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किए गए। विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | थाना          | बरामदगी  | गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या |
|---------|---------------|----------|-------------------------------|
| 1.      | थाना पसगवां   | 120 लीटर | 03 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 2.      | थाना तिकोनिया | 30 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 3.      | थाना पलिया    | 30 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 4.      | थाना गोला     | 20 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 5.      | कोतवाली सदर   | 20 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 6.      | थाना धौरहरा   | 20 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
| 7.      | थाना मोहम्मदी | 20 लीटर  | 01 अभियुक्त गिरफ्तार          |
|         | कुल योग       | 260 लीटर | 09 अभियुक्त गिरफ्तार          |